



36775 - हज्ज अकबर का दिन

प्रश्न

हज्ज अकबर के दिन और हज्ज अकबर (अकबरी हज्ज) का अर्थ क्या है ? क्या उन दोनों का अर्थ एक है, या उनमें से एक दूसरे से विभिन्न है ? और क्या उन दोनों में से प्रत्येक कुरआन करीम और सही सुन्नत में मौजूद है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हज्ज अकबर के दिन से अभिप्राय यौमुन्नहर (ज़ुलहिज्जा का दसवाँ दिन) है, अबू दाऊद ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से उल्लेख किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने हज्ज में यौमुन्नहर के दिन खड़े हुए और फरमाया : “यह कौन सा दिन है ?” लोगों ने कहा : यौमुन्नहर (कुर्बानी का दिन), तो आप ने फरमाया : “यह हज्ज अकबर का दिन है।” सुनन अबू दाऊद (हदीस संख्या : 1945) और अल्बानी ने इसे सही अबू दाऊद (हदीस संख्या : 1700) में सही कहा है।

तथा बुखारी (हदीस संख्या : 369) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से उल्लेख किया है कि उन्होंने ने कहा : मुझे अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन लोगों में भेजा जो यौमुन्नहर के दिन मिना में यह एलान कर दें कि : “इस साल के बाद कोई मुशरिक (अनेकेश्वरवादी) हज्ज न करे, और कोई नग्न (वस्त्रहीन) आदमी खाना काबा का तवाफ न करे।”

तथा यौमुन्नहर का नाम हज्ज अकबर का दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि उसकी रात में अरफह में ठहरना, मशअरे हराम (मुज़दलिफा) में रात बिताना, और उसके दिन में कंकरी मारना, कुर्बानी करना, सिर मुँडाना, तवाफ और सई करना होता है, तथा हज्ज के दिन का मतलब समय है और हज्ज अकबर से अभिप्राय उस दिन का काम है, तथा हज्ज अकबर का दिन कुरआन करीम में वर्णित है, अल्लाह तआला ने फरमाया :

[وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [التوبة : 3]

“अल्लाह और उसके पैगंबर की ओर से हज्ज अकबर के दिन लोगों के लिए एलान है कि” (सूरतुत तौबा : 3).

और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है।